



दिनांक:- 22.11.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



“पुलिस अधीक्षक महोबा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ सैनिक सम्मेलन”

आज दिनांक 22.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में पुलिस लाइन परिसर में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी कर उनका निराकरण करना था। जिसमें जनपद के विभिन्न थानों और प्रकोष्ठों में नियुक्त पुलिस बल की 50% की संख्या में उ0नि0/हे0कां0/आरक्षी/म0आरक्षियों द्वारा सम्मेलन में प्रतिभाग किया गया।

उक्त सम्मेलन में पुलिस अधीक्षक महोबा पूरी तरह एक अभिभावक के रूप में पेश आये जिसमें मौजूद पुलिस कर्मियों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं/सुझाव के बारे में जानने का प्रयास किया गया तथा कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। साथ ही अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कोरोना महामारी जैसी विषम परिस्थितियों में भी निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किये जाने पर सभी के कार्यों की सराहना की गयी। इसी क्रम में बीट आरक्षी को अपने क्षेत्र की समस्त जानकारी रखने एवं क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर अराजकतत्वों पर पैनी नजर रखने एवं शांतिर अपराधियों पर कार्यवाही सुनिश्चित करने पर पुरस्कृत करने का आश्वासन दिया गया।

इस सैनिक सम्मेलन के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह, क्षेत्राधिकारी लाइन/कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय, प्रभारी प्रतिसार निरीक्षक/परिवहन शाखा ललित नारायण द्विवेदी, **SP Pro** राजेश मौर्य, प्रधान लिपिक हेमन्त कुमार, निरीक्षक **LIU** ए0के0 सिंह व अन्य थाने/प्रकोष्ठों से आये हुये अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।





दिनांक:- 22.11.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



“मिशन शक्ति” अभियान के तहत महिला थाना प्रभारी एवं एण्टी रोमियो टीम ने बालिकाओं/महिलाओं को किया जागरूक

आज दिनांक 22.11.2020 को उ0नि0 सुषमा चौधरी प्रभारी महिला थाना मय टीम एवं एण्टी रोमियो टीम के साथ आल्हा चौक, महोबा पर स्कूली छात्राओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिए चलाये जा रहे महाभियान "मिशन शक्ति" के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा महिला हेल्पलाइन नम्बर- 1090, 181, 112,1076 को साझा किया गया एवं महिला सम्बन्धी कानून आदि की जानकारी देते हुये उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।

जागरूक करने हुये बताया गया कि थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क में महिला अधिकारी की नियुक्ति की गयी है, जहां आप अपने साथ हुये दुर्व्यवहार/अभद्रता को खुलकर बता सकेंगी एवं जिसका त्वरित निस्तारण महिला हेल्प डेस्क में नियुक्त पुलिस महिला अधिकारी द्वारा किया जायेगा साथ ही महिलाओं से जुड़े विधिक अधिकारों की जानकारी भी देंगी। जिससे नारी गरिमा से खिलवाड करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्यवाही की जा सके।





दिनांक:- 22.11.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



अग्निशमन टीम ने बस स्टैण्ड महोबा में किया सैनेटाइजेशन का कार्य:-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम के निकट पर्यवेक्षण में वैश्विक महामारी **कोविड-19** के प्रसार की रोकथाम हेतु जनपद में वृहद रूप से अग्निशमन टीम द्वारा सैनेटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है।

इसी क्रम में कल दिनांक 21.11.2020 को प्रभारी अग्निशमन अधिकारी उ०नि० श्री देवेश तिवारी मय अग्निशमन टीम द्वारा अग्निशमन वाहनों के माध्यम से रोडवेज बस स्टैण्ड एवं रोडवेज वर्कशॉप महोबा में वृहद रूप से सैनेटाइजेशन का कार्य किया गया।





दिनांक:- 22.11.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



‘थाना कुलपहाड पुलिस ने अवैध तमंचा/कारतूस सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार’

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में शांतिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 22.11.2020 को प्रभारी थाना कुलपहाड द्वारा गठित टीम जिसमें उ०नि० रामविलास शुक्ला ने हमराही कर्मचारी की मदद से अभियुक्त आनन्द यादव पुत्र राजेश यादव उम्र करीब 19 वर्ष को मय एक अदद तमन्चा 315 बोर अवैध मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर अवैध के साथ मुढ़ारी तिराहे के पास कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया तथा जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 351/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त आनन्द यादव उपरोक्त को नियमानुसार मान० न्यायालय पेशी हेतु भेजा गया ।

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर अवैध मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर अबैध बरामद होना ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:- थाना...कुलपहाड..।

- (1) उ०नि० रामविलास शुक्ला
- (2) उ०नि० महेन्द्र प्रताप सिंह
- (3) कां० अमित कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- (1) आनन्द यादव पुत्र राजेश यादव उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम लुगासी थाना नौगांव जनपद छतरपुर म०प्र०





दिनांक:- 22.11.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



महोबा पुलिस